



श्री महावीर दिगम्बर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय

Shri Mahaveer Digambar Jain Sr. Sec. School

Mahaveer Marg, Ashok Nagar, C-Scheme, Jaipur-302001

दिनांक – 02/07/2018

प्रेस विज्ञप्ति

महावीर स्कूल में शुरू हुआ लेख सुधार कैंप

श्री महावीर दिगंबर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज 21 दिवसीय उडिया तकनीक आधारित हस्तलेख सुधार शिविर आरंभ हुआ। इस कैंप में उडिया तकनीक से विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में लेख सुधार का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिविर का शुभारंभ प्रबंध समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ज्ञान चंद झांझरी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर संस्था के संयोजक श्री मुकुल कटारिया ने कहा कि विगत 40 वर्षों से स्कूल यह कैंप लगा रहा है और अब तक लगभग 10000 विद्यार्थियों को इससे लाभांशित किया जा चुका है। संस्था के आचार्य श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा ने बताया कि कैंप में अब तक 135 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है तथा नए शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जीवन में जिन विद्यार्थियों के लेख बेहतर होते हैं उनका व्यक्तित्व भी सकारात्मक होता है। शर्मा ने जानकारी दी कि विद्यार्थियों के सुन्दर लेख का प्रभाव महावीर स्कूल के परीक्षा परिणाम पर भी अनुकूल रहा है और इस वर्ष कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम अर्जित हुआ है। कार्यक्रम का संचालन श्री नरेश जैन ने किया कार्यक्रम के संयोजक श्री धर्मेन्द्र पाल ओझा और श्रीमती सोनिया टाक ने विद्यार्थियों को सिखाई जाने वाली तकनीक का प्रदर्शन किया।

(राजेन्द्र मोहन शर्मा)

आचार्य